



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2004/पौष 26, 1925

No. 67]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2004/PAUSA 26, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2004

का.आ. 83(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 133(अ), तारीख 4 फरवरी, 2003 की अधिसूचना द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), माथेरन और उसके आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल के रूप में अधिसूचित किया है और उक्त अंचल में उद्योगों, संक्रियाओं, प्रक्रियाओं और अन्य विकासमूलक क्रियाकलापों पर निर्बन्धन अधिरोपित किए हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. पैरा 2 की पंक्ति 2 में, "बफर जोन" शब्दों के स्थान पर "251.56 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में समाविष्ट बफर जोन" शब्द रखे जाएंगे;
2. पैरा 3 में, निम्नलिखित अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
"विशिष्टतया और उक्त अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कदम भी उठाए जाएंगे :—  
(क) गैर वनोद्योग प्रयोजन के लिए वन क्षेत्रों के उपयोग के लिए किसी प्रस्ताव में, राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के लिए अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा,  
(ख) जलाने की लकड़ी आदि के लिए वृक्षों की अवैध कटाई के निवारण के लिए आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त ईंधन लकड़ी की वनस्पति का रोपण किया जाएगा।  
(ग) महाराष्ट्र राज्य वन विभाग द्वारा एक विनिर्दिष्ट वन संरक्षण योजना तैयार की जाएगी और संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्णिकता के आधार पर आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।"
3. पैरा 4 में,—  
(क) उप-पैरा (क) की मद (iv) में,—  
(i) पंक्ति 5 में "अनुज्ञेय तल क्षेत्र" शब्दों से पूर्व "माथेरन नगरपालिका सीमाओं में" शब्दों का लोप किया जाएगा।  
(ii) पंक्ति 8 और 9 में "माथेरन नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में" शब्दों के स्थान पर "पारिस्थितिक संवेदनशील अंचल में :—" शब्द रखे जाएंगे।

- डॉ. आर.आर. खान, सलाहकार

- (i) in line 5, after the words “ground coverage for buildings” the words “in Matheran Municipal limits” shall be omitted;
- (ii) in line 10, for the words “In areas other than Matheran Municipal limits:—” the words “In the Eco-Sensitive Zone :—” shall be substituted.

- (b) in sub-paragraph (h), in line 7, for the figure “4”, the figure “5” shall be substituted.
  - (c) in sub-paragraph (n), in line 2, for the words “except ambulance and fire engine and use of tractor for transportation of solid waste”, the words “except one ambulance and one fire engine and, in addition, one ambulance and one fire engine as stand by” shall be substituted.
4. In paragraph 6, after sub-paragraph (3), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—
- “(4) It shall be the duty of the Monitoring Committee to inquire into or review cases of alleged violations of the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder, and if found necessary in specific cases, issue directions under Section 5 of the said Act.
  - (5) The Monitoring Committee or any Officer or member of the Monitoring Committee authorised by it shall be authorised to take action under Section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from the above.”
5. At page 26, in line 1, for the figure and words “6. Appeal”, the figure and words “7. Appeal” shall be substituted.
6. In Annexure-B, in line 2, for the words “MMR” the words “Mumbai Metropolitan Region (MMR)” shall be substituted.
7. In Annexure-D, sub-paragraph 5.2 shall be omitted.

[F. No. J-20011/1/99-LA.-III]

Dr. R. R. KHAN, Adviser